



VRL/SEC/EXCHANGE

27.05.2022

National Stock Exchange of India Ltd. 5th Floor, Exchange Plaza Bandra (E), Mumbai- 400 051

25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street** Mumbai

Script Code: 526953

**BSE Limited** 

Sub.: Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam.

Please find enclosed herewith newspaper publication of notice for issue of duplicate shares in lieu of loss of shares.

Kindly take it on your record.

Yours faithfully, for VENUS REMEDIES LIMITED

(Company Secretary)

# **VENUS REMEDIES LIMITED**

Corporate Office:

51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.) 134113, India

Regd. Office:

Regd. Office:
SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India

Website: www.venusremedies.com

www.vmrcindia.com

email: info@venusremedies.com CIN No.: L24232CH1989PLC009705

**Unit-I :** 51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India Tel. : +91-172-2933094, 2933090, 2565577, Fax : +91-172-2565566

Hill Top Industrial Estate, Jharmajri EPIP, Phase-I, (Extn.), Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India Tel.: +91-1792-242100, 242101, Fax: +91-1795-271272

**Unit-V:** VENUS PHARMA GmbH AM Bahnhof I-3, D-59368, Werne, Germany






चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 2.590 2.5 गुना बढ़कर 280 करोड़ रुपये रहा ₹ 567.4 पिछला बंद भाव ₹ 595.5 आज का बंद भाव

बेयर क्रॉपसाइंस 4,701.00 4,600

\_5,050 चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ १४६ फीसदी बढ़कर १५३ करोड़ रुपये रहा ₹ 4,737.6 पिछला बंद भाव



चौथी तिमाही में लाभ १९ फीसदी घटकर ४७ करोड़ रुपये रह गया ₹ 302.7 ਧਿਲ਼ੁਆ ਗੁੰਟ ਮਾਹ ₹ 268.7 आज का बंद भाव वोल्टएंप ट्रांसफॉमर्स



1,925 67 फीसदी की बढ़त के साथ ५२ करोड़ रूपये ₹1,960.5 पिछला बंद भाव

# संक्षेप में

# ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल न करे केपीएमजी

अलीपर की वाणिज्यिक अदालत ने केपीएमजी एश्योरेंस ऐंड कंसिल्टंग सर्विसेज और बैंकों को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल या उस पर कदम उठाने से अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश 20 मई को पारित हुआ, जो श्रेय के प्रवर्तक हेमंत कनौड़िया की याचिका पर आधारित है। इसकी अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

# इंडिया सीमेंट ने त्वस्ता के साथ करार किया

इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई स्थित दीप टेक स्टार्टअप त्वस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्युशंस ने निर्माण उद्योग में नई पहलों के लिए समझौता किया है। इस भागीदारी से इंडिया सीमेंटस और त्वस्ता को 3डी प्रिंटिंग एप्लीकेशनों में इस्तेमाल नए मैटेरियल फॉर्मूलेशन विकसित करने के लिए तकनीकी-केंद्रित प्रयासों का आदान प्रदान करने और कई प्रमुख परियोजनाओं को सहायता मुहैया कराने में मदद मिलेगी। भारत के निर्माण उद्योग में सीमेंट कंपनी और स्टार्टअप के बीच यह अपने तरह की खास भागीदारी है। वर्ष 2016 में आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र त्वस्ता द्वारा स्थापित कंपनी ने पारंपरिक तकनीकों के मुकाबले तेज, किाफायती और टिकाऊ निर्माण प्रणालियों के लिए 3डी प्रिंटिंग प्लेटफॉर्मों में ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स का लाभ उठाने के लिए 'मेड इन इंडिया' तकनीक विकसित की।

# इंडिगो का शुद्ध घाटा 1,681 करोड़ रूपये

बीएस संवाददाता और एजेंसियां नई दिल्ली/मुंबई, 25 मई

मानन कंपनी इंडिगो का मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही का शुद्ध घाटा 46.6 प्रतिशत बढ़कर 1,681 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। विमानन कंपनी को कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर ओमीक्रोन के दौरान उच्च ईंधन लागत और कमजोर रुपये के कारण यह घाटा हुआ है। बुधवार को एयरलाइन के बयान से यह जानकारी मिली है। भारत की सबसे बडी एयरलाइन को वित्त वर्ष 2021-22

में शुद्ध रूप से कुल 6,161 करोड़ रुपये घाटा हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में उसे 5,806 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में एयरलाइन की कुल आय 28.9 प्रतिशत बढ़कर 8,020 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एअरलाइन के मुख्य

कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रोनोजॉय दत्ता ने कहा कि पहले छह माह में ओमीक्रोन वायरस की वजह से मांग में गिरावट के कारण यह तिमाही मुश्किल रही है।

# कोविड के पूर्व स्तर पर राइट्स का राजस्व

ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड कंसल्टेंसी फर्म राइट्स लिमिटेड का राजस्व वित्त वर्ष 22 में कोविड के पूर्व स्तर पर पहुंच गया, जो 2,745 करोड़ रुपये रहा। रेलवे पीएसयू ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद यह जानकारी दी। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 20.9 फीसदी की बढोतरी के साथ 765 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 632 करोड़ रुपये रहा था। कंसल्टेंसी, लीजिंग और निर्यात में मजबूत प्रदर्शन के कारण यह मुमिकन हो पाया।

# अदाणी पोर्ट्स का शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत घटा



अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) का मार्च, 2022 में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 21.78 प्रतिशत घटकर 🗌 1,033 करोड रुपये रह गया। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा कि इससे

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसने 1,321 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था।। कंपनी ने बताया कि 2021-22 की चौथी तिमाही में उसकी एकीकृत कुल आय बढ़कर 4.417.87 करोड रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अविध में 4,072.42 करोड़ रुपये थी। वहीं समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 3,309.18 करोड़ रुपये हो गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,526.91 करोड़ रुपये था।

# पीएफसी के शुद्ध लाभ में 10 प्रतिशत का इजाफा

सार्वजानिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) का एकीकृत शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़कर 4,295.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पीएफसी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को भेजी जानकारी में बताया कि आय में वृद्धि के साथ कंपनी का लाभ बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की अंतिम तिमाही में कंपनी ने 3,906.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। पीएफसी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य के शेयर पर 1.25 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है।

### एनएचपीसी का शुद्ध लाभ 7 प्रतिशत बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनएचपीसी का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 515.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में 482.35 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। एनएचपीसी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में उसकी कुल आय 2,026.62 करोड रुपये रही, जो इससे एक साल पहले की इसी अवधि में 2,100.12 करोड़ रुपये रही थी। एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10 रुपए के अंकित मल्य के शेयर पर पांच प्रतिशत प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

# एसजेवीएन के मुनाफे में 98 प्रतिशत की गिरावट

सार्वजनिक क्षेत्र की एसजेवीएन का बीते वित्त वर्ष की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 98 प्रतिशत से अधिक घटकर 7.49 करोड़ रुपये रह गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 619.92 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय घटकर 393.87 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी के निदेशक मंडल ने 2021-22 के लिए 10 रुपये के शेयर पर 55 पैसे प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

# नालको के मुनाफे में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि

नालको का समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही का एकीकृत लाभ 9.5 प्रतिशत बढ़त के साथ 1,025.46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह मुनाफा उच्च आय के कारण हुआ है। नालको ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को यह जानकारी दी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020कोल इंडिया का शुद्ध लाभ ४६ प्रतिशत बढा

कोल इंडिया (सीआईएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 45.9 प्रतिशत बढ़कर 6,692.94 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आय में वृद्धि के साथ कंपनी का मुनाफा बढा है। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की अंतिम तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 4,586.78 करोड़ रुपये था। सीआईएल की परिचालन आय बीते वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में बढकर 32,706.77 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 26,700.14 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च भी आलोच्य तिमाही के दौरान बढ़कर 25,161.20 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 21,515.60 करोड़ रुपये था।

इसके अलावा का सीआईएल का उत्पादन 31 मार्च, 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में बढ़कर 20.9 करोड़ टन का हो गया। कंपनी ने इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में 20.34 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया था। कोल इंडिया के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तीन रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। यह सिफारिश हालांकि, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंजरी के अधीन है।

21 की इसी तिमाही में 935.74 करोड रुपये का एकीकृत लाभ कमाया था।

# अदाणी समूह के ऊंचे मूल्यांकन पर बाजार गिरावट का असर नहीं

इक्विटी बाजारों में ताजा गिरावट का अदाणी समृह कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन पर काफी कम असर पड़ा है। अदाणी समूह कंपनियां शेयर बाजारों में काफी हद तक महंगी बनी हुई हैं और इनके संयुक्त कीमत-आय (पीई) मल्टीपल 105.3 गुना और प्राइस-टु-बुक वैल्यू (पी/बीवी) अनुपात 15.3 गुना पर हैं।

अदाणी समूह में सात सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार पंजीकरण मंगलवार को 14.44 लाख करोड रुपये पर था, जबिक 2021-22 में इनका संयुक्त शुद्ध लाभ 13,715 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के अंत में संयुक्त नेटवर्थ का आंकड़ा 94,442.5 करोड़

अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकोनोमिक जोन द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने नतीजे अभी जारी किए जाने बाकी हैं। कंपनी की निवेश पंजी सितंबर 2021 (वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही) के अंत तक की है, वहीं इसका शुद्ध लाभ दिसंबर 2021 में समाप्त पिछले 12 महीने की अवधि का है।

अदाणी समृह का संयुक्त बाजार पुंजीकरण दिसंबर 2019 से 617 प्रतिशत तक चढ़ा है, जबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार पूंजीकरण में समान अवधि में 84 प्रतिशत और टाटा समूह कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 76 प्रतिशत की तेजी आई।

समृह के मुल्यांकन अनुपात अन्य बडे व्यावसायिक समहों के अनुपात से कई गुना ज्यादा हैं। तुलनात्मक तौर पर, राजस्व, लाभ और बाजार

पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी आरआईएल का शेयर 26 गुना और 2.3 गुना के पी/बीवी अनुपात पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण मंगलवार को 17.7 लाख करोड रुपये पर था, जबकि वित्त वर्ष 2022 में

उसका समेकित शुद्ध लाभ 60,705 करोड़ रुपये और इस साल मार्च के अंत में उसकी नेटवर्थ 7.8 लाख करोड रुपये थी। टाटा समृह के शेयर भी सस्ते हैं और मंगलवार को

इनका पीई मल्टीपल 27.5 गुना और पी/बीवी अनुपात 6.2 गुना था। 16 प्रमुख टाटा समूह कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से टाटा संस द्वारा प्रवर्तित हैं और इनका संयुक्त बाजार पंजीकरण शकवार को 20.65 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022 में समेकित आधार पर 74,523 करोड़ रुपये का संयुक्त शद्ध लाभ और 3.32 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ

अदाणी समूह के शेयरों का मूल्यांकन भी सेंसेक्स शेयरों के मुकाबले काफी ज्यादा है।

### कंट्री डिलाइट ने जुटाए १०.८ करोड़ डॉलर

डी2सी फूड एसेंसियल्स ब्रांड कंट्री डिलाइट ने डी सीरीज की फंडिंग के तहत 10.8 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। फंडिंक के इस दौर की अगुआई वेंचुरी पार्टनर्स व टेमासेक ने की, साथ ही इसमें एसडब्ल्युसी ग्लोबल व टाईफेक्टा कैपिटल ने हिस्सा लिया। मौजूदा निवेशकों आईआईएफएल ऐसेट मैनेजमेंट, एलिवेशन कैपिटल, ओरियस वेंचर पार्टनर्स और मैट्रिक्स पार्टनर्स भी इसमें शामिल हुए। इस लेनदेन ने कंपनी की कुल फंडिंग को 14.7 करोड़ डॉलर पर पहुंचा दिया।

साल 2013 में गठित कंट्री डिलाइट देश की अग्रणी डी2सी फ्रेश फड एसेंसियल ब्रांड बनने के लिए काफी पप्रगति की है, जो डेयरी, फल व सब्जियां उपभोक्ताओं को उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराती है।

कंपनी के सीईओ व सह-संस्थापक चक्रधर गाडे और सीओओ नितिन कौशल ने कहा. कंपनी दशकों पुराने भारतीय खाद्य आवश्यकता के क्षेत्र को अवरोधित करने के मिशन पर है।

बीएस बातचीत

# रिटेल-होलसेल मिश्रण सुधरने में वक्त लगेगा

देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई से नकदी आरक्षी अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की राह आसान बनाने को कहा है। बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी **श्रीनिवासन वैद्यनाथन** ने **मनोजित साहा** को एक साक्षात्कार में बताया कि आसान राह से बैंक को उधारी के लिए कोष उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा देने में मदद मिलेगी। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंशः

क्या मानकों और प्राथमिक क्षेत्र की के लिए स्थानांतरित हो जाएंगी जरूरतों को परा करने के लिए या एचडीएफसी को विलय के और समय मांगा है? क्या इसे बाद इन निवेश से निकलने की लेकर और समय दिए जाने की जरूरत होगी? योजना पर आरबीआई से कोई

संकेत मिला है? हम आरबीआई समेत विभिन्न विलय के लिए मानक समय-सीमा जाएगा। है। हमने सीआरआर/एसएलआर नियामक विचार कर रहा है।

एचडीएफसी ने रियल एस्टेट हमने कोई लक्ष्य तय नहीं किया है,

उपक्रम हैं। बड़ी सहायक इकाइयां ( एचडीएफसी लाइफ. नियामकों से मंजुरियां हासिल करने एचडीएफसी एएमसी और की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इन एचडीएफसी इरगो) सभी, प्रक्रियाओं में 12-18 महीने का खासकर वित्तीय क्षेत्र की हैं और वक्त लग सकता है, जो किसी भी इन्हें बैंक को स्थानांतरित किया

और पीएसएल के लिए राह आसान क्या आप मानते हैं कि बैंक का निवेश और खपत (आवासीय क्षेत्र बनाए जाने को कहा है, जिस पर **थोक बिक्री बहीखाता लगातार** समेत) से जीडीपी को मदद मिलने रिटेल ऋणों से आगे बना की संभावना है। हमने रिटेल रहेजा?

एचडीएफसी बैंक-एचडीएफसी जैसे क्षेत्रों में गैर-सूचीद्ध क्योंकि खासकर मिश्रण और वृद्धि विलय पर ताजा जानकारी क्या कंपनियों में निवेश किया है। मांग पर निर्भर है। लेकिन रिटेल

अनिश्चितताएं जुड़ी हुई थीं और अर्थव्यवस्था/कर्जदार पर उसका कई सहायक इकाइयां और संयुक्त प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई थी। हमने होलसेल और रिटेल दोनों में बेहतर स्थिति वाले कर्जदारों पर ध्यान दिया है।

> होलसेल-रिटेल परिसंपत्ति मिश्रण के बारे में दो-तीन साल में स्थिति कैसी रहेगी?

सेगमेंट और महामारी से संबंधित ऋण जरूरतों पर जोर दिया है। हमने

मिश्रण का लक्ष्य नहीं रखा है, लेकिन रिटेल मिश्रण में भविष्य में सुधार आने की संभावना है। जब कई बैंक डिजिटल पर जोर

रिटेल-होलसेल के बीच कोई खास

दे रहे हैं, ऐसे में इसकी क्या वजह है कि एचडीएफसी बैंक शाखाएं खोलने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है?

हमारा मानना है कि खासकर दुरदराज इलाकों में शाखाएं नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारा मॉडल शाखाओं का इस्तेमाल कर ग्राहकों को लभाना और उन्हें सेवाओं के **आपने विलय के बाद क्या ये** मिश्रण में सुधार आ सकता है। लिए डिजिटल चैनल मुहैया कराना सीआर आर /एसएलआर परिसंपत्तियां एचडीएफसी बैंक महामारी के दौरान हम उधारी को है। ये डिजिटल-केंद्रित शाखाएं हैं लेकर सतर्क थे. क्योंकि कोविड जो सभी उत्पाद देश के विभिन्न की वजह से कई तरह की हिस्सों में पहुंचाने में सक्षम

> बैंक ने मझोले स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 1 रुपये पर 10 करोड रीरिटक्टिड स्टॉक यूनिट्स (आरएसयू) को स्वीकृति दी है। इसके पीछे क्या मकसद है?

हमने कर्मचारियों के लिए दीर्घाविध रियायत योजनाओं के तौर पर इसॉप अगले कुछ वर्षों में हमें सरकारी का प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया है। आरएसय के साथ, हमने मध्यम स्तर के कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल किया है। इसॉप की तरह आरएसयू भी कर्मचारियों के लिए वेतन पैकेज का हिस्सा होंगे।

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

J.P. CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD.

Short term e-tender Notice

Online e-bids are invited for the sale of different kind of Alcohol (ENA, SDS, Matured

Spirit) from Cooperative Distilleries of U.P. to reputed Distilleries of India, bonafide

registered users to whom license have been issued by the Excise Department and

approved traders holding valid license of Excise department of the concerned State. E-

enders can be uploaded upto 06:55 P.M. on 06.06.2022 and Technical bid will be

opened at 11.30 AM and Financial bid at 3.30 PM on 07.06.2022, E-bid minimum EMD

is Rs. 80000/- EMD is variable if quoted quantity is above 01.00 lac BL. The rate at which EMD shall increase will be Rs 0.80 per BL. Total quantity for sale of Alcohol is

approximately 19.20 lac BL and Tender cost Rs. 2000/- + 18% GST (Non refundable)

The details for submission of e-bids will be available on the e-tender PORTA

http://etender.up.nic.in and also on Federation website www.upsugarfed.org since

25.05.2022 at 06.55 P.M. The Managing Director Federation reserves the right to

cancel any or all the e-bids without assigning any reason. The decision of the Managin

MANAGING DIRECTOR

Director shall be final and binding.

UPSUGARFED /17/ GM(AT) 3C

Date: 25.05.2022

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा इम्पेशंस पिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं-22 व 49 गाउंड फ्लोर, फेज-॥ इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-१३४११५, हरियाणा से मुद्रित एवं एससीओ ८६१, एनएसी मनी माजरा,चंडीगढ़-१६०१०१ से प्रकाशित संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं1 टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599 सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs\_bs@bsmail.in

या ५७५५५ पर एसएमएस करें REACHBS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से पूरे परिस्थितयों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टी के आधार जारन वासायक अध्याजका निकार हा स्वर्ध है, त्र सावाया स्वर्ध के प्रकारिता स्थाप के व्याप्त पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की विजनस स्टेंडड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वी विणय लेन को अपदी को जाती है। बिजनेस स्टेंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मैंठ बिजनेस स्टेंडर्ड प्राo लिंठ का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टेंडर्ड प्राo लिंठ से

लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनिधकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

# त्र संख्या P-8798 यू**०पी० एफ**०/ **TENDER NOTICE**

On line e-tenders are invited from manufacturers, authorised dealer (as per details given in tender documents) for supply of Stainless steel tubes & Brass tubes to our various Cooperative Sugar Factories of U.P. The e-tender documents with detailed specifications terms and conditions etc. can be downloaded from e- tender portal. http://etender.up.nic.in & federation website www.upsugarfed.org. can time to time. Old bidder should also submit the tender fee Rs.2360/-

The Managing Director Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e- bidding process without assigning any reason & decision of Federation will be final &

(RAMAKANT PANDEY) MANAGING DIRECTOR

# आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

**कार्पोरेट कार्यालय :** युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़ अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069. **पटियाला शाखा** : बी-17/423, दूसरी मंजिल, सेठी कॉम्पलेक्स, पोलो ग्राउंड के सामने, मोदी कॉलेज चौक, लोअर मॉल रोड़, पटियाला-147001 (पंजाब

### शानदार कमाई कृष्ण कांत

# परिशिष्ट IV आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतू)

जहाँ कहीं, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ

फायनेंशियल एसेटस एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पूर्नभूगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ /प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभृतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

	क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
		(कम्बाईन एलसी नं.10200000383/ पटियाला शाखा) मंगे लाल(ऋणी) द्रोपती पति मंगे(सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, खाता नं. 223/323, शिव मंदिर के पास, शास्त्री नगर, तोहाना आर ओ, नरवाना, जिन्द, हिरयाणा - 126116. चर्तुसीमा : पूर्व : लिलता का प्लाट, पश्चिम: जगदीश का प्लाट, उत्तर: 18 फीट चौड़ी गली, दक्षिण: विक्रेता का प्लाट 10 फीट 0 इंच	00-00-2021 एतं	21-05-2022
ŀ	स्थान : जिन्द प्राधिकृत अधिकारी				
दिनांक : 26.05.2022			आधा	र हाउसिंग फाइन	नेंस लिमिटेड

# सूचीबद्ध फर्मीं से टाटा संस को होगी

मुंबई, 25 मई

निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी प्रवर्तक टाटा संस को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सूचीबद्ध समूह कंपनियों से शेयर पुनर्खरीद के जरिये इक्विटी लाभांश और प्राप्तियों के जरिये रिकॉर्ड 27,797 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यह राशि उसे वित्त वर्ष 2021 में हासिल हुई 23,663 करोड़ रुपये से 17.6 प्रतिशत तक ज्यादा है।

इसका करीब दो-तिहाई हिस्सा वित्त वर्ष 2022 के लिए टाटा संस के वित्तीय परिणाम में दिखेगा. क्योंकि उसकी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा तिमाही अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई है। सॉफ्टवेयर दिग्गज ने वित्त वर्ष के अंत से पहले वित्त वर्ष 2022 के लिए अपना 18,000 करोड रुपये का शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम भी पूरा किया है।

# <u>VENUS</u>

वीनस रेमेडीज लिमिटेड के लिए

# शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सूचना

प्रमाणपत्र(ओं) जारी करने की प्रक्रिया करेगी ।

स्थान : चंडीगढ़

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र(ओं) गुम / खो गए है और अतः पंजीकृत शेयरधारक(ओं) / दावा करने वालों ने शेयर प्रमाणपत्र(ओं) खो जाने के कारण डुप्लीकेंट शेयर प्रमाणेपत्र(ओं) जारी करने के लिए कपनी से अनुरोध किया है

	नं.	रापरवारका क नान	सं.	की सं.	से तक		
	0012199	NEMI CHAND RANKA	36907	100	5829101-5829200		
कोई व्यक्ति जो उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र(ओं) के संबंध में दावा रखते हैं, इस प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित पते पर हमें लिखित में दावे भेज सकते हैं। इसके बाद							
	कंपनी उ	क्त शेयर प्रमाणपत्र(ओं) के संबंध में	किसी दावे	पर विच	ार नहीं करेगी और		
	कंपनी (शे	ायर पंजी व डेंबेचर्स) नियम 2014 के 1	नियम ६ के उ	अनपाल	न में डप्लीकेट शेयर		

दिनांक : 25.05.2022 (कंपनी सचिव) वीन्स रेमेडीज लिमिटेड आर.ओ.: एससीओ ८५७, सी.नं. १० दूसरी मंजिल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़—१६०१०१ कॉर्पोरेट कार्यालय: ५१—५२, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज— ।, पंचकूला—१३४११३ (हरियाणा)

CIN: L24232CH1989PLC009705

Punjab & Sind Bank

D-2C SECTOR-18 ATTA NOIDA Phone: 0120-2512403,2512404 E-mail: a0426@psb.org.in

05-05-2022 Mr. Abhinav Chauhan S/o Sh Rajesh Chauhan

R/o Flat no K 66 Pratap Vihar, Sector 12, Ghaziabad, Also at: Property No J-79 (SF with Roof rights) Sector 12 GMP Awasiya Colony, Pratap Vihar Ghaziabad

Mr Abhishek Chauhan s/o Sh Rajesh Chauhan, R/o Flat no K 66 Pratap Vihar Sector 12, Ghaziabad, Also at: Property No J-79 (SF with Roof rights), Sector 12 GMF Awasiya Colony, Pratap Vihar Ghaziabad Reg.: Identification of default in your loan transactions with the Bank as

"Wilful". Please be informed that it is proposed to classify you(borrower) as a "willful defaulter"

inter-alia for the following reasons:-Ground of Wilful Default

(a) Misrepresentation/ falsification of records and fraudulent transaction by the you You have availed term Loan from our bank by mortgaging property which was kept as security with Jammu and Kashmir Bank through fabricated documents.

You may make submission and show cause as to why you should not be classified as wilful defaulter'. Your representation should reach us within 15 days of receipt thereof If you donot make any submission, the matter will be decided without giving any furthe opportunity Branch Manager, Atta Noida

Master Kishan Lal Colony Behind Bus Stand, Bilara - 342602 Distt. Jodhpur (Raj.) Mobile :-08875001423 (0) Email- bilara@bankofbaroda.com #website : www.bankofb POSSESSION NOTICE (Symbolic) (Immovable property)

hereas The undersigned being the authorized officer of the BANK OF BARODA under th becuritizations and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 1002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the ecurity Interest (Enforcement Rules, 2002 issued a demand notice dated 01/10/2021 callin pon the Borrower/Mortgagor to Late Mr. Paras Ram S/o Ramsukh Chauhan, Mr. Omprakash /o Ramsukh Chauhan, Mr. Kalu Singh S/o Vijay Singh (Mortgagor/Gurrantor) And 28/01/2022 alling upon the Mrs. Shobha Devi W/o Late Paras Ram(Legal heirs of late Paras Ram S/o Ramsukh Chauhan) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 3.10.133.88 (Rupee: hree lakh Ten Thousand One Hundred Thirty Three and Eighty Eight Paisa only) and intel ere on w.e.f. **01/08/2021** within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower /guarantor/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the roperty described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) o ection 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the da rection 13 of Act read with rule 3 of the Security interest Embreament, Rules, 2002 of this frie dai 77 **20th May of the year 2022**. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8 of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Bank of Baroda,** BILARA Branch, for an amount of Rs.3,10,133.88 (Rupees Three lakh Ten Thousand One ndred Thirty Three and Eighty Eight Paisa only) and interest there on w.e.f. 01/08/2021

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of the property consisting of EM of residential house situated at Plot No:25, Misal No. 8/10, Khasra No. 821, Situated at Village **Barna**, Tehsil **Bilara**, Dist: **Jodhpur**, Rajasthan, admeasuring about **107.77** Sq.yard (970 sq.ft.) in the name of **(1) Late Paras Ram** Chouhan, S/o Shri Ramsukh Chouhan and (2) Omprakash, S/o Shri Ramsukh Chouhan wit oint ownership Bounded as: On the **North** by : House of Jabra Ram, On the **South** by : House o Uga Ram, On the **East** by : Plot of Ramsukh, On the **West** by : Road Date: 20.05.2022 Place: Bilara Authorized Officer

Branch: Jaipur Road, Dausa

**POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies)** As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the curitization and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand notice dated **97.02.2022** calling upon the **borrower Mr Narendra Kumar Sharma**, **Mr Gordhan Sharma and Mr Jagdish Prasad** to epay the amount mentioned in the notice being **Rs. 2340423**/- +Intt (Rupees twenty three lacs fourly thousand four hundred twenty three only) as on 31.01.2022 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

he Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the rublic in general that the undersigned has taken possession of the property described herein elow in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act ead with Rule 8 of the said Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the **21st day** 

May of the year 2022. he Borrower/Guarantors/Mortgager in particular and public in general is hereby cautioned ot to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to charge c ank of Baroda for an amount of **Rs. 2432316/- (Rupees Twenty four lacs thirty two thousan** hree hundred and sixteen only) and further interest thereon at the contractual rate plus costs

harges, and expenses till date of payment.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, i espect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All the part and parcel of the property consisting of Residential property at plot no P-616 tuated at khasra no 257, Ayodhya Nagar, Dausa Kala, Dausa standing in the name of Mr Jagdish Prasad Sharma and Sh Gordhan Sharma. Bounded: On the North by – Road 22 vide, On the South by – Open Area, On the the East by – P-617, On the West –  $\dot{P}$ -615 Chief Manager/ Authorised Officer Date: 21.05.2022 Place: Dausa

#### HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT **NVITATION FOR BIDS (IFB)**

Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD, Palampur on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table:

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Starting date for down-loading Bid	Earnest Money	Deadline For submission of bid
1	Balance work of Civil Hospital New Block at Palampur. (SW:- Providing and fixing Aluminums fitting in Doors & windows frame, Tile flooring , Board Paneling, Painting and Sanitary fitting)	Rs 5,49,866/-	26.05.2022	Rs 11000/-	04.06.2022
2	Construction of road Ghuggar Nallah Harizan Basti to Chowki Km 0/00 to 0/700 under SCSP (SW:- Cutting in Earth work, Construction of 2.00 M span at Km 0/200, HP Culver 900 MM dia at Km 0/430 and P/L G-I and G-II in Km 0/200 to 0/650)	,,	26.05.2022	Rs 16000/-	04.06.2022

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website WWW.hptenders.govt.in **Executive Enginee** 

HPPWD, Division, Palampur PIN-176061 Tel. 01894-230561,e-mail:-ee-pal-hp@nic.i 1248/2022-2023 On behalf of Governor of H.P.

**APPENDIX IV** 

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 29.12.2021 calling upon the Borrowers SUDHIR KUMAR MAHAJAN AND KANIKA MAHAJAN to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 52.77.320.91/- (Rupees Fifty-Two Lakh Seventy-Seven Thousand Three Hundred Twenty and Paise Ninety-One only) against Loan Account No. HHLLAJ00206546 as on 20.12.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 19.05.2022. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 52,77,320.91/- (Rupees Fifty-Two Lakh Seventy-Seven Thousand Three Hundred Twenty and Paise Ninety-One only) as on 20.12.2021 and interest

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

assets

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND BEING UNIT NO 0603, ON THE 6TH FLOOR, BLOCK-04, SUPERTECH ECO VILLAGE-4, PLOT NO. GH-01, GREATER NOIDA. NOIDA-201308. UTTAR PRADESH. ADMEASURING SUPER BUILT UP AREA OF 1464 SQUARE FEET

Authorized Officer Date: 19.05.2022 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED **INDIAN OVERSEAS BANK** 

Ward No 15, Shastri Nagar, Rani Sati Road, Sikar-332001 Rajasthan Email ID-iob2436@iob.in Ph No.015722240098 SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES {Under Proviso to Rule 8 (6) of security interest (Enforcement) Rules E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement

	r to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable propertie sion of which has been taken by the Authorised officer of Secured Creditor, will be sold of 14.06.2022.		
Borrowers Name		Reserve Price EMD Amount	
	EM of Residential house situated at Near Baba Ramdev Mandir, Village Chandpura Panchayat Samity Piprali, Tehsil & District-Sikar Rajasthan Pin-		Rs. 6,05,702/- as on 13.05.2022 +

332021 Admeasuring 128.15 Sq. Yard Owned by Mr. Mahendra kumar S/c

Mr. Gordhan Balai. Boundaries- East-Land of Mahesh kumar, West-Land o Nirbhaypran, North-Rasta, South-House of Shyola Ram & others

Goardhan Balai

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided ebkray portal https://ibapi.in. Also, Prospective bidders may contact the authorized officer on Mob.no. 9414578426; 7568762225. Authorised Officer. Date: 23.05.2022 Place: Jaipur (Rai.) Indian Overseas Bank

प्रनियन र्वेक 🕜 Union Bank	Rajendra Marg, Bhilwara Main Branch		SALE N	NOTIC	E FO	DR S	ALE OF
S Acres Committee	Email: Bhilwara@unionbankofindia.com		IMMO	VABL	E PR	ROP	ERTIES
		-					

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Votice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is". "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as nentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money

Deposit are also mentioned hereu	nder:		
Name & address of Borrower/Guarantor	Description of immovable	Reserve Price EMD Amount	rocovorod
Prop:- Mr. Rahul Agarwal Shop	All that piece and parcel of immovable properties 1). Shop No. S-206 and S-207, 2nd Floor, Shree Cloth Market, Gandhi Nagar, Pur Road, Bhilwara with admeasuring area of 704 sq. ft. in the name of Sh. Rahul Agarwal s/o Sh. Chandra Kishore Agarwal Boundaries: East-Road, West-Corridor, North-Open Area Above Gully, South-Shop No. S-205	Rs. 2.91 Lacs	as on 31.03.2021 plus legal & other misc charges and further interest at contractual
Chandra Kishore Agarwal, Sh. Mayank Agarwal s/o Sh. Chandra Kishore Agarwal Both	2). Shop No. S-209, 2nd Floor, Shree Cloth Market, Gandhi Nagar, Pur Road, Bhilwara with admeasuring area of 352 sq. ft. in the name of Sh. Mayank Agarwal s/o Sh. Chandra Kishore Agarwal Boundaries:- East- Corridor, West-	Rs. 1.48 Lacs	Bid Incr. Amt.
w/o sh. Chandra Kishore Agarwal 149-D-9, Gudri Bazar	3). Plot No. 28, Araji No.35, 36, Anuvrat Nagar, Behind D'Mart, Village Malan, Bhilwara with admeasuring lang area of 1920 sq. ft. in the name of MrsSheela Agarwal d/o Sh. Brahmdev Prasad Agarwal Boundaries:- East-Plot No. 29, West-Plot No. 27, North-Road 30'Wide, South-Plot No. 23		Rs. 50,000/- Encumbrances, if any: NIL

Date and Time of Auction: 17/06/2022, between 10.00 am to 3.00 pm (with 10 min unlimited auto extensions) Last date of submission of bid : On or Before 16.06.2022 E-auction website- www.mstcecommerce.com

Auction Agent Details: The Online E-Auction will be held through web portal/website www.mstcecommerce.com on the date and tim mentioned above with unlimited extension of 10 minutes. The intending bidders/purchasers required to register through <a href="https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp">https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp</a> by using their mobile number and valid email-id. They are further equired to upload KYC documents and Bank Details. For Registration related queries e-mail to <a href="mailto:bapiop@mstcecommerce.com">bapiop@mstcecommerce.com</a>. For EMD payment/refund related queries e-mail to ibapifin@mstcecommerce.com.

Bidders are advised to go through the website <a href="https://www.ibapi.in">https://www.ibapi.in</a>, and <a href="https://www.ibapi.in">www.unionbankofindia.co.in</a> tenders for detailed terms and conditions of E-Auction. For acution related queries e-mail to <a href="mailtosarfaesi@unionbankofindia.com">sarfaesi@unionbankofindia.com</a> or contact Mr. Pankaj Verma, BM, Bhilwara Main Branch, Bhilwara Contact No. 7665431652. This notice also is treated as notice U/R 8(6) & proviso to R 9(1) of Security terest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale of the abov aid properties on the above mentioned date. Authorized Officer, Union Bank of India Date: 26.05.2022 Place: Bhilwara

Description of secured

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Certificate No. of Distinctive Nos.

No. Shares From To

100 5829101-5829200

For Venus Remedies Limited

(Company Secretary)

<u>VENÙS</u>

asset (immovable property)

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules,

2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling

ipon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to then

In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Sunii Keshwani, Mr. 21 - May - 2022 Rs. All that piece and parcel of the property var Lal, Mrs. Jaishri, 27,35,251.00/- (Rupees being : Plot No - C-70, Admeasuring- 1250 mi Traders, Mrs. Pooja, Twenty Seven Lakh Thirty Five Thousand Two Hundred Jodhpur, 342001, Rajasthan, India

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the abov secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, cost

and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office

IIFL HFL 2nd Floor Bharat Plaza E-112 Kalpatru Shopping Center Masuriya Section-4. Shastri Nagar Nea

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) have been reported to be

lost/ misplaced and the registered holder(s)/ claimant(s) therefore have requested the

Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s)

ny person(s) who has/ have and claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate(s

should lodge the claim in writing with us at the following address within 15 days from the

publication hereof. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in

respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share

Certificate(s) pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rule

**VENUS REMEDIES LIMITED** 

R.O.: SCO 857, C. No.10, 2nd Floor, NAC, Manimajra, Chandigarh-160101.

Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-I Panchkula-134113 (Harvana)

Contact No. 0172-2933090,94, Email- complianceofficer@venusremedies.com CIN: L24232CH1989PLC009705

APPENDIX IV

[See rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,

2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice

dated 30.12.2021 calling upon the Borrowers MR. GAGAN DEEP SINGH AND

HARLEEN KAUR to repay the amount mentioned in the Notice being

Rs. 38,17,480.16 (Rupees Thirty Eight Lakhs Seventeen Thousand Four

Hundred Eighty and Paisa Sixteen Only) against Loan Account No.

HHLLAJ00208529 as on 22.12.2021 and interest thereon within 60 days from the

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the

Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic

possession of the property described herein below in exercise of powers

conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the

charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of

Rs. 38,17,480.16 (Rupees Thirty Eight Lakh Seventeen Thousand Four

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PIECE AND PARCEL FLAT NO. 204 AREA 1175 SQ. FT SUPER AREA

ON 2ND FLOOR IN BLOCK-J, SUPERTECH ECO VILLAGE-4, PLOT NO. GH

01, SECTOR-16B, GAUTAM BUDDHA NAGAR-201303, UTTAR PRADESH.

wer's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of

Hundred Eighty and Paisa Sixteen Only) as on 22.12.2021 and interest there

the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 23.05.2022.

the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

36907

Jain Travels, Jodhpur - 342001/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gu

Name of the Borrower(s). Demand Notice /Guarantor (s) Date & Amount

Fifty One Only)

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Name of Shareholders

hwar Lal. Mrs. Jaishri.

Place: Jodhpur Date: 26.05.2022

0012199 NEMI CHAND RANKA

Laxmi Traders, Mrs. Pooja,

(Prospect No. 933489)

Folio

Place: Chandigarh

Date: 25.05.2022

Chola

Place : DELHI

Un debited

interest and futur

interest

**Cholamandalam Investment And Finance Company Limited** 

Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001. Branch Office: - 1st and 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi 110 005 Sudhir Tomar - 9818460101

RECALLING / WITHDRAWING SALE NOTICE

We here by inform to the Borrowers(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) and the General/ Public that the Authorized Officer of M/s. Cholamandalam Investment and Finance Limited, is recalling/withdrawing the Sale Notice dated 13-05-2022, [Published on 14-05-2022 in "Business Standard" (English) and "Business Standard" (Vernacular)] and shall initiate proceedings for sale a fresh as contemplated under the SARFAESI Act, 2002 towards the Loan Account Nos. XOHEDET00002110273 and HE02DET0000004368 of 1. Mr. DHARAMBIR SINGH DAGAR, 2. Mr. RAKESH DAGAR, 3. Ms. SAROJ DEVI and M/S. DHARAMBIR SINGH DAGAR, THROUGH ITS PROPRIETORSHIP / AUTHORIZED REPRESENTATIVE. Date: 26-05-2022 AUTHORISED OFFICER

M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

tale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office a Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV,Gurgaon-122015.(Haryana) and Branch Office at:- Ambition Tower, Plot No. D-46-B, Offices No. 307 To 312, Malai (As Chauraha, Agrasen Circle, Subhash Marg,C-Scheme, Jaipur - 302001 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the vebsite: www.bankeauctions.com.

politower(s) /	Demand Notice		Description of the initiovable [	Date of Symbolic Possession	Reserve Frice		
Co-Borrower(s)	Date and Amou	nt	property/ Secured Asset	11-May-2022	Rs.8.34.000/-		
/Guarantor(s)	11-Jan-2022		All that part and parcel of the	Total Outstanding	(Rupees Eight Lakh Thirty		
I. Mr. Manoj	Rs. 8,67,639/- (Rupees Eight Lakh		property bearing Flat No. B-114,	As On Date 16-May-2022	Four Thousand Only)		
Kumar	Sixty Seven Thousand Si	x Hundred		Rs.8.96.437/-	Earnest Money		
2. Mrs.Suman Thirty Nine Only)			Building known as " UNIQUE	(Rupees Eight Lakh Ninety			
Devi	Bid Increase Amount						
(Prospect No. 830058)	Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousar	nd Only)	No. 1189/179, Tehsil- Ghorana, Sikar, 332001, Rajasthan, India admeasuring 352 Sq Feet	Six Thousand Four Hundred Thirty Seven Only)	Rs.83,400/- (Rupees Eighty Three Thousand Four Hundred Only)		
Date of Inspection of property			EMD Last Date	Date/ Tin	ne of E-Auction		
27-Jun-2022 1100 hrs -1400 hrs			29-Jun-2022 till 5 pm.	01-Jul-2022	1100 hrs-1300 hrs.		
And Of Payment: All payment shall be made by demand draft in favour of "IIEL Hame Finance Limited" payable at Gurugram or through P							

The accounts details are as follows: a) Name of the account:-IIFL Home Finance Limited" payable at Gurugram or through RTGS/NEF The accounts details are as follows: a) Name of the account:-IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:-Standard Charted Bank Ltd., c) Accounts-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.iiftfinance.com.

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the paymer details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of

the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the

prescribed mode of payment. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land

and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings

For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID: ror details, neigh procedure and online training on e-accion prospective bloders may contact the service provider a man bit support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr.Vibhor Trivedi@9828036667 Email:-vibhor.trivedi@iffl.com, Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical

possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.

Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.

In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the

amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute i tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place : Sikar Date : 26-May-2022 Sd/-Authorised Officer
IIFL Home Finance Limited

APPENDIX IV

[See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 29.12.2021 calling upon the Borrowers SANTOSH YADAV AND JUHI SANTOSH YADAV to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 52,03,851.05 (Rupees Fifty-Two Lakhs Three Thousand Eight Hundred and Fifty-One and Paise Five only) against Loan Account No. HHLLAJ00204192 as on 20.12.202 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 23.05.2022

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 52,03,851.05 (Rupees Fifty-Two Lakhs Three Thousand Eight Hundred and Fifty-One and Paise Five only) as on 20.12.2021 and interest thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 o the Act in respect of time available, to redeem the secured assets

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** 

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT BEING UNIT NO. 0604, ON THE 6TH FLOOR OF TOWER-D4, ECO VILLAGE-4, GH -01, SECTOR-16B, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR-201308, UTTAR PRADESH

Date : 23.05.2022 Place: GREATER NOIDA

**Authorised Officer** INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

[See rule 8 (1)] **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

APPENDIX IV

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING

FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 14.10.2021 calling upon the Borrower(s) MANJIT SINGH AND MEENAKSHI RANI to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.76.55.356.70 (Rupees Seventy-Six Lakhs Fifty-Five Thousand Three Hundred Fifty-Six and Paise Seventy Only) against Loan Account No. HHLROH00219982 as on 11.10.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 23.05.2022. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not

to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.76,55,356.70 (Rupees Seventy-Six Lakhs Fifty-Five Thousand Three Hundred Fifty-Six and Paise Seventy Only) as on 11.10.2021 and interest

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** PLOT NO. B-3 ADMEASURING 889,505 SQUARE YARDS (743,74 SQUARE

METERS) BLOCK -B, SECTOR-35, SUNCITY, SONIPAT ROAD, ROHTAK 124001, HARYANA AND WHICH IS BOUNDED AS FOLLOWS:-EAST : 24 METER WIDE ROAD WEST : PLOT NO. B-17

NORTH: PLOT NO. B-2 SOUTH: PLOT NO. B-4

Date: 23.05.2022 **Authorised Officer** INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place: ROHTAK

### **EURO MULTIVISION LIMITED** CIN: L32300MH2004PLC145995

Regd Office: F 12, Ground Floor, Sangam Arcade, Vallabhbhai Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056.

 $India - \textbf{Tel.:}\ 022-40364036\ \textbf{Fax:}\ 022-40364037\ \ \textbf{Email:}\ \underline{info@euromultivision.com}, \textbf{Website:}\ \underline{www.euromultivision.com}$ 

Audited Financial Results for the Year ended March 31, 2022 (Rs. in Lakhs except EPS)

	Quarter Ended		Year Ended		
Particulars		31-Dec-21 Unaudited	31-Mar-21 Audited	31-Mar-22 Audited	31-Mar-21 Audited
Total Income from operations (net)	-	-	0.48	0.10	3.20
Net Profit / (Loss) for the period	(304.88)	(311.00)	(302.93)	(1238.86)	(1396.41)
(before tax, exceptional and / or extraordinary items)					
Net Profit / (Loss) for the period	(304.88)	(311.00)	(302.93)	(1238.86)	(1396.41)
(before tax, (after) exceptional and / or extraordinary items)					
Net Profit / (Loss) for the period	(304.88)	(311.00)	(302.93)	(1238.86)	(1396.41)
(after tax, exceptional and / or extraordinary items)					
Total Comprehensive Income for the period	(304.88)	(311.00)	(315.35)	(1226.12)	(1408.84)
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)					
and other Comprehensive Income (after tax)]					
Equity Share Capital	2380.00	2380.00	2380.00	2380.00	2380.00
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)				(38028.79)	(36802.66)
as shown in the Audited Balance Sheet of previous year					
Earnings Per Share (of Rs.10/- each)					
(For continuing and discontinued opeartions) (In Rs.)					
(a) Basic	(1.28)	(1.31)	(1.32)	(5.15)	(5.92)
(b) Diluted	(1.28)	(1.31)	(1.32)	(5.15)	(5.92)
Notes:				1	

The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results for the quarter ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and its extracts is available on website of the Stock Exchanges websites i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com), and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and website of the Company i.e. www.euromultivision.com. The Statutory Auditors have expressed modified opinion on the Audited Financial Results, in the Statutory Auditors' Report issued by them.

The detailed Financial Results and this Extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on Wednesday, May 25, 2022. For Euro Multivision Limited

Hitesh Shah Chairman and Whole Time Director Place: Mumbai Date: May 25, 2022 DIN: 00043059

**BUDDHA NAGAR** 

Date: 23.05.2022

Place: GAUTAM

date of receipt of the said Notice



**Authorised Office** 

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED















### TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED SCO-20, 2nd Floor, Sector-26-A, Chandigarh 160012

#### NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation an Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read vith proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and Co-Borrower, or their legal heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL) the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, wi be sold on 5th July 2022 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereb given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the sai ecured asset / property shall be sold by E- Auction at 2 P.M. on the said 5th July 2022. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E-Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 4th July 2022 till 5 PM at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED SCO-20, 2nd Floo Sector-26-A. Chandigarh 160012.

The sale of the Secured Asset/ Immovable Property will be on "as is where condition is" as er brief particulars described berein belo

per brief particulars described herein below,							
Loan A/c. No	Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) /	Amount as per Demand	Reserve Price				
	Legal Heir(s) / Legal Representative/ Guarantor(s)	Notice	Earnest Money				
TCHHF036 300010000	Mr. Inderjit Singh Makkar (Borrower),	Rs. 7869473/- (Rupees Seventy Eight Lakh Sixty Nine Thousand Four	Rs. 11130000/-				
7764 and TCHHF036 300010006 6812	Mrs. Jasvinder Kaur <sup>*</sup> , M / S M a k s o n International (Co- borrower)	Hundred Seventy Three Only) is due and payable under Loan Account No. TCHHF0363000100007764 and an amount of Rs. 1272267/- (Rupees Twelve Lakh Seventy Two Thousand Two Hundred Sixty Seven Only) is due and payable under Loan Account No. TCHHF0363000100066812, i.e. totalling of Rs. 9141740/- (Rs. Ninety One Lakh Forty One Thousand Seven Hundred Forty Only)	Rs. 1113000/-				

Description of Immovable Property: Commercial Shop no. 4, M.C. No. B-2-738/16/E, property measuring 53 Sq. vds Comprised in khasra no. 563. Khatta No. 443/502, as per lamabandi for year 2009-10 (khatta No. 442/501 as per Jamabandi for year 2014-15 situated at village Mahal Bhagat, H.B No. 164, Abadi Known as Manna Singh Nagar (Chaw Mohalla) G.T. Road, Ludhiana

29-01-2022

At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby given last chance to pay the total dues with further interest within 30 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amoun due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured deb nterest and costs has been paid before the date of the auction.

No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall nowever, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold.

The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interes

(Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions:

NOTE: The E-auction of the properties will take place through portal https://DisposalHub.com on 5th July 2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with limite

extension of 10 minutes each.

Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the Immovable Property shal at once again be put up to auction subject to the discretion of the Authorised Officer, 2. The mmovable Property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amour will be: Rs.10.000/- (Rupees Ten Thousand Only), 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." Payable at Branch address. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorise Officer, 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that ne/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorised Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorise Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 24th June 2022 between 11 AM to 5.00 PM. with prior appointment. 8. The perso declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwit be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty.

The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable. Nil. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: NIL. The Intending Bidder i advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the propert including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc. 12. For any other detail or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact. Service Provider M/s NexXen Solutions Private Limited, Address: #203, 2nd Floor, Shree Shyan Palace, Sector: 4&5 Crossing, Railway Road, Gurugram – 122 006 through its Mobile No. +91 97100 29933, +91 98100 29926, Tel. No. +91 124 4 233 933, E-mail ID: CSD@disposalhub.com; OR Mr. Arijit Bhatt, Email id Arijit.bhatt@tatacapital.com Authorised Officer of TCHFL, Mobile No 9029073280. Please send your query or WhatsApp Number – 9029073280. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposite by highest bidder in the PAN of the owner/ borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company, 14. Please refer to the below link provided in secured creditor. website https://bit.ly/3sSsqQD for the above details. Please Note - TCHFL has no engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of his property. Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all queries and enquiry in this matter

Place: Ludhiana Date-26.05.2022

Sd/- Authorised Office Tata Capital Housing Finance Ltd.

### **Fullerton India Credit Company Limited** PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that deceased borrower **NARESH KUMAI** long with other Co-Borrowers had availed financial assistance of Rs.30,66,400/ (RUPEES Thirty Lakh Sixty Six Thousand Four Hundred only) from Fullerton Indi Credit Company Limited ("Secured Creditor") against immovable property bearing "Property/Land Measuring 200 SQ Yards or 6 Marla 6 Sarsai Bening" 60/1224 SHARE OUT OF LAND MEASURING 6 KANAL 16 MARLA, COMPRISING I KHEWAT NO.565/479, KHATONI NO 600, KHASRA NO.129/19(6-16), SITUATED II MADLAUDA, TEHSIL MADLAUDA, DISTT PANIPAT, HARYANA." ("Secured Asset" hat, consequent to the defaults in repayment, the said loan account has been declare NPA and the SARFAESI Proceedings will be initiated against the said Secured Asse Meanwhile, the unfortunate demise of said Borrower namely NARESH KUMAR has come to the knowledge of Secured Creditor and despite several efforts of Secure Creditor, it has not been able to trace the identities of legal heirs of the said decease

Therefore by way of the present public notice, the legal heirs of the deceased borrow namely **NARESH KUMAR** are hereby requested to intimate to the undersigned in writing about their identities with all necessary and supporting documents within 07 days from the date of publication hereof, failing which it shall be presumed that there are no lega heirs of the deceased borrower, whereupon Secured Creditor shall be at liberty to initiate proceedings in accordance with law including under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 read with Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and enforce its security interest against the said Secured Asset which shall include taking possession of the said Secured Asset and thereafter effecting sale of the same t recover its outstanding dues.

Place: Panipat Date: 26.05.2022

Sd/- Authorised Officer Fullerton India Credit Company Limited

### POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housin Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ac 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repeat the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with th

property will be subject to the charge of IFFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets

Name of the Borrower(s) Ludhiana &	Description of secured asset (immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand	Date of Possession
Chandigarh BRANCH Rajvinder Singh and Kulveer Kaur (Prospect No. IL10041988)	All that piece and parcel of: Plot area admeasuring 100 sq.yrds on Khasra no.1208-1209 situated at Wakia Guru Nanak Nagar, Near Ishar Nagar Gill-2,Ludhiana Punjab,India.	Eighteen Lakh Ten	Notice 10-Aug- 2021	
Boot And Attachi House,	All that piece and parcel of: Plot No.11-12, admeasuring 205 Sq, yards, Mc No.B-14-2157/13, Islam Ganj, Ludhiana, Pincode: 141002, Punjab, India	Twenty Five Lakh Sixty Nine	20-Sep- 2021	20-May-22
Mr. Arpit Awasthi, Mrs. Neelam (Prospect No. 787124)	All that piece and parcel of: Flat No 25, GF, , Dara Greens Kharar, Kharar, Mohali, 140601, Punjab,India, admeasuring 805 Sq. Ft,		16-Feb- 2022	23-May-22

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: SCO 21, 5TH, FLOOR LUDHIANA, FEROZGANDH MARKET, LUDHIANA, PUNJAB - 141001 and SCO no 2907-08, 2nd Floor, Adjacent to Karnataka Bank, Sector 220 Chandigarh-160022/or Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limit Place: Ludhiana & Chandigarh Date: 26/05/2022

# Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.

APPENDIX IV **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

### Patiala Branch: B-17/423, 2nd Floor, Sethi Complex,Opp. Polo Ground, Modi College Chowk,Lower Mall Road, Patiala - 147001, (PB).

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the

	snarge of AHFL for an amount as mentioned nerein under with interest thereon.					
5	Sr. Name of the Borrower(s)/ lo. Co Borrower(s) (Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession		
	Patiala Branch) Mange Lal (Borrower), Dropati W/o Mange (Co-Borrower)	All that part & parcel of the property Bearing, House At Khata No. 223/323, Near Shiv Mandir, Shastri Nagar, Tohana Ro Narwana, Jind, Haryana- 126116. <b>Boundaries</b> : East: Plot of Lalita, West: Plot of Jagdish, North: Gali width 18 feet, South: Plot of Seller 10 Feet 0 Inch	00-00-2021 &	21-05-2022		
F	Place : Jind Authorised Officer					

SOUTH INDIAN Bank

Date: 26-05-2022

nal Office: Delhi Plot No 21 & 21/1.3rd floor Near Karol Bagh Opposite to Metro Pillar no 98, Pusa road, Karol Bagh, New Delhi – 110 005 Ph-011- 23610400

Aadhar Housing Finance Limited

Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017 SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

[See proviso to rule 8 (6)] Auction Sale Notice for Sale of Immovable and movable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financia

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described moveable property / immovable property Hypothecated / Mortgaged to The South Indian Bank Ltd, Chandigarh Branch, the PHYSICAL POSSESSION of which has been taken on 16/09/2020 by the Authorised Officer of The South Indian Bank Limited, will be sold on "as i where is", "as is what is", and " whatever there is" on 29/06/2022 for recovery of an amount of Rs. 5,28,63,401.58 (Rupees Five Crore Twenty Eight Lakh Sixty Three Thousand Four Hundred One And Fifty Eight Paisa Only) as on 20/05/2022 due to The South Indian Bank Limited, Chandigarh Branch from (1) Mr. Anil Kumar Jindal son of Late Shanti Saroop Jindal, Proprietor of M/s. G H Enterprise with office address at Village Bir Plassi, Hadbast No.101, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh - 174101 also at Shop No.150, Sector 7, Chandigarh and residential address at House No.1594, Sector 7 C, Chandigarh – 160009, (2) Mr. Sunish Jindal So of late Shanti Saroop Jindal with residential address at House No.1594, Sector 7 C. Chandigarh – 160009, (3) Mrs. Sunita Jindal wife of Anil Kumar Jindal residential address at House No.1594, Sector 7 C, Chandigarh – 160009 and (4) Mrs. Anupama Jindal wife o Sunish Jindal with residential address house No. 1594, Sector 7C, Chandigarh – 160009.

Description of property	RESERVE PRICE	EARNEST MONEY DEPOSIT
Hypothecation of the entire current assets (present and future) of the firm (Addressee no.1 among you) and all the goods and receivables covered under LC, stocks like fibre glass hut, die & mould for shelters, steel wire rope, GI structure, ceramic tiles, steel structure, MS steel, pipes etc and all other present and future actionable claims and other movable property such as stock — in — trade, Machineries and goods, book debts, decrees, decreetal debts of the firm which now or hereafter from time to time during the security shall be brought in stored or be in or about the premises or godown of the firm at Village BirPlassi, Hadbast No. 101, Tehsii Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh — 174101, and Shop No.150, Sector 7, Chandigarh and/or anywhere else.	(Rupees One Lakhs Only	Rs.10,000.00 (Rupees Ten Thousand Only)
All that part and parcel of property admeasuring 2 bigha comprised in Khewat/Khatoni No. 57/62, Khasra No. 261/2(2-0), pieces 1, situated at Village BirPlassi, Hadbast No. 101, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh — 174101 along with building thereon and all constructions/improvements made thereon, in the name of M/s. G H Enterprises (Addressee no.1) more particularly described under Sale Deed No. 992 dated 24.05.2007 of SRO Nalagarh bounded on — North by Land of ACC Cement Company, South by plot, East by land of Rupana Paper Mill, West by approach road.	(Rupees Sixty Four Lakhs Only)	Rs.6,40,000/- (Rupees Six Lakhs Forty Thousand Only

The Authorised Officer has obtained EC / Search Report regarding the property from the year 04/08/2016 to 05/02/2021 and it contain. NO ENCUMBRANCE. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in South Indian Bank Ltd. websit e. www.southindianbank.com.

Authorised Office Date: 25/05/22 (CHIEF MANAGER)

# Place : Delhi emami paper mills limited

Registered office: 687, Anandapur, 1st Floor, E.M Bypass, Kolkata - 700107 Phone No. 033 6613 6264, Fax No. 033 6613 6900, Website: www.emamipaper.in, Email: investor.relations@emamipaper.com

# Statement of audited financial results for the quarter and year ended 31st March 2022

	-	_			(₹/crores)	
		Quarter Ended			Year Ended	
Particulars	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	
Total Income from operations (Net)	568.81	518.52	411.38	1,957.71	1,216.27	
Earning before Interest, Depreciation and Tax (EBITDA)	100.83	72.28	66.53	322.08	181.46	
Net Profit/(loss) for the period (before exceptional items and tax)	54.04	30.85	29.81	159.33	30.16	
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	48.10	30.85	102.27	153.39	102.62	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items and tax)	36.68	23.22	47.28	114.80	51.06	
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	28.25	21.41	49.66	113.63	77.02	
Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 2/- each) Convertible preference shares Other equity as on Balance Sheet date	12.10	12.10	12.10	12.10 243.52 397.40	12.10 243.52 283.84	
Earnings Per share (of ₹ 2/- each) Basic (in ₹/ share) Diluted (in ₹/ share)	5.86 4.62	3.64 2.92	7.81 7.78	18.17 14.45	8.43 8.40	

# Note:

The above is the extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Year end Financial Results are available on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India at www.nseindia.com and on the website of the Company at www.emamipaper.in

For and on behalf of the Board Dated: 25th May, 2022 Place: Kolkata

Vivek Chawla Whole-time Director and CEO DIN: 02696336

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IlFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice will be date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:
Name of the Demand Notice Demand Notice Property)

Demand Notice Property

Name of the	Demand Notice	Description of secured asset (illimovable property)			
Borrower(s).	Date & Amount	All that piece and parcel of the property being : Property Plot,			
	21-May-2022	Situated at waka Darr Area of Property kheda Didar Nagar ward			
Mr. Ram Pal,	Rs. 16,93,072/-	No. 12, Area Admeasuring 216.66 Sq. Yards, Thanesar Comprised			
Mr. Raj Pal,		in Khewat no. 345, Khatoni no. 391, Murraba no. 35, Khasra no.			
		15(8-0), Rakba 8 Kanal its 1/144 Share i.e. 1 Marla 1 sarsai and			
Devi (Prospect	Thousand Seventy	Khewat no. 351, Khatoni no. 397, Murraba no. 35, Khasra no.			
No. 840457)	Two Only)	16/1(5-12), Rakba5 Kanal 12 Marla its 3/56 Share i.e. 6 Marla			
		Total Rakha 7 Maria 1Sar Kurukshetra Harvan a 136118 INDIA			

If the said Borrowers fail to make payment to IJEL HEL as aforesaid, IJEL HEL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers, For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL HEL Karnal - SCO - 408, GF, Mugal Canal, Karnal, Haryana - 132001/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Karnal Date: 26.05.2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

कार्यालय नगर परिषद्, पाली (राजस्थान) ्(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोत के पास, पाली, पिनकोड – 306401) (टेली—फैक्स : 02932—221301, ई—मेल : cmcpali@yahoo.co.in, वेब—साईट :www.mcpa

क्रमांक : प.12 ( ) विकास / 2022 / 1619 **REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)** 

# नगर परिषद, पाली की ओर से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में पंजीकृत संवेदक

2 कार्यों हेतुं "CONSULTANCY FROM EMPANELLED CONSULTANTS OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING & LOCAL SELI GOVERNMENT, GOVERNMENT OF RAJASTHAN." FOR PREPARATION OF DPF FOR 1. LAYING OF SEWER LINE IN NEW AND LEFT-OVER AREAS OF PALI CITY 2. STORM WATER DRAINAGE FOR MUNICIPAL AREA. PALI आमंत्रित की जाती संवेदक दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 30.05.2022 तक अपने आवदेन जमा करा सकते दिनांक 27.05.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में रखा गया है ।

संवेदक RFP से सम्बन्धित अन्य http://sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in https://www.arhc.mohua.gov.in तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त कर सकत हैं। उक्त EOI के यूबीएन संख्या DLB2223RFP0010 है।

अधिशाषी अभियन्ता आयक्त नगर परिषद, पाली नगर परिषद्, पाली राज.संवाद / सी / 22 / 2353

<u>VENÙS</u>

# NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) have been reported to be lost/ misplaced and the registered holder(s)/ claimant(s) therefore have requested the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s)

l	No.			Shares	From To	
ı	0012199	NEMI CHAND RANKA	36907	100	5829101-5829200	
Any person(s) who has/ have and claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate						
should lodge the claim in writing with us at the following address within 15 days fror						

publication hereof. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rule For Venus Remedies Limited

Place: Chandigarh

VENUS REMEDIES LIMITED

R.O.: SCO 857, C. No.10, 2nd Floor, NAC, Manimajra, Chandigarh-160101. Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-I Panchkula-134113 (Haryana). Contact No. 0172-2933090,94, Email- complianceofficer@venusremedies.com CIN: L24232CH1989PLC009705

#### HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT **NVITATION FOR BIDS (IFB)**

Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD, Palampur on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table: Estimated Starting date Earnest Deadline E

No.	name or work	Cost	for down- loading Bid	Money	submission of bid	
1	Balance work of Civil Hospital New Block at Palampur. (SW:- Providing and fixing Aluminums fitting in Doors & windows frame, Tile flooring , Board Paneling, Painting and Sanitary fitting)	Rs 5,49,866/-	26.05.2022	Rs 11000/-	04.06.2022	
2	Construction of road Ghuggar Nallah Harizan Basti to Chowki Km 0/00 to 0/700 under SCSP (SW:- Cutting in Earth work, Construction of 2.00 M span at Km 0/200, HP Culvert 900 MM dia at Km 0/430 and P/L G-I and G-II in Km 0/200 to 0/650)	Rs. 7,90,791/-	26.05.2022	Rs 16000/-	04.06.2022	
The	oidders are advised to note other details of tenders from the department website					

WWW.hptenders.govt.in Executive Enginee HPPWD, Division, Palampur PIN-176061,

Tel. 01894-230561,e-mail:-ee-pal-hp@nic.ir 1248/2022-2023 On behalf of Governor of H.P.